



## St. Vivekanand Lotus Valley Public School

### Summative Assessment - I

#### Class : IX

Subject	Syllabus
English	Reading – Unseen Passage Writing – Descriptive Paragraph, Diary Entry Grammar – Tenses, Active Passive voice Literature – The fun They had , The Sound of Music, The little girl [Poem] – The Road not taken , Wind , Rain on the Roof, The Cake Isle of Innisfree Moments – The Lost Child, The Adventure of Toto, Ishwaran the story letter, In the Kingdom of fools, A truly Beautiful Mind
Hindi	स्पर्श : दुख का अधिकार, एवरेस्ट , मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि काव्य खंड: रैदास के पद, रहीम के दोहे , गीत अगीत अग्नीपथ संचयन: गिल्लू , समृति , कल्लू कुम्हार की उनाकोटी व्याकरण: अपठित गद्यांश , अनुस्वार, अनुनासिक, उपसर्ग , प्रत्यय , विराम चिन्ह अनुच्छेद लेखन चित्र वर्णन, संधि, संवाद लेखन
Maths	Chapter - 1) Real number 2) Polynomial 3) Co-ordinate geometry 4) linear equation in two variables 6) lines and angles 12) Heron's formula 13) Surface areas and volumes 14) Statistics
Science	Chapter 1 – Matter in our Surroundings Chapter 2 – Is Matter around us Pure Chapter 3 – The fundamental unit of Life Chapter 4 – Tissues Chapter 8 – Motion Chapter 9 – Force and Laws of Motion Chapter 10 – Gravitation

S.St.	<p>History –  Chapter 1- The French Revolution  Chapter 2 – Socialism in Europe and The Russian Revolution  Geography –  Chapter 1 – India – Size and Location  Chapter 2 – Physical features of India  Chapter 3 – Drainage  Political Science  Chapter 1 – What is Democracy? Why Democracy?  Chapter 2 – Constitutional Design  Chapter 3 – Electoral Politics  Economics –  Chapter 1 – Factors of Production (The story of village Palampur)  Chapter 2 – People as Resources</p>
Physical Activity Trainer	<p>Chapter-1 role of physical education in children development  Chapter-4 Children health and safety.</p>
IT	<p>Part A  Unit 2: Self-management Skills  1. Introduction to self-management  2. Building Self confidence  Part B:  Unit 2: Data entry Tools- keyboarding skills  1. Data entry Tools- keyboard and mouse  2. Using typing software  Unit 3: Digital Documentation  1. Word processing Application  2. Editing the document  3. Formatting the Document  4. Creating and using tables  5. Printing the document  6. Using mail merge</p>